



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

04 चैत्र 1944 (श०)  
(सं० पटना 126) पटना, शुक्रवार, 25 मार्च 2022

---

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

24 मार्च 2022

सं० 1/प्रा0आ0-0-3-31/14/1213/आ0प्र0—बाढ़ अवधि में किसी व्यक्ति की मृत्यु सर्पदंश से होने पर आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-68/सा0पुन0 दिनांक-06.08.2002 एवं 4187/आ0प्र0 दिनांक-24.11.2014 के आलोक में प्राकृतिक आपदा (बाढ़) जनित कारण मानते हुए मृतक के निकटतम परिजन को राज्य आपदा रिस्पांस कोष (SDRF) से निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाता है, परन्तु बाढ़ अवधि के अतिरिक्त सर्पदंश से होने वाली मृत्यु में अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग से सम्प्रति अनुमान्य नहीं है।

2. बाढ़ अवधि के अतिरिक्त सामान्य समय में भी राज्य में सर्पदंश की घटनाएँ घटित होती रहती है एवं इससे होने वाली मृत्यु के मामले में अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु आपदा प्रबंधन विभाग में जनशिकायत, “जनता दरबार में मुख्यमंत्री” कार्यक्रम के माध्यम से आवेदन एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से भी पत्र प्राप्त होते रहते हैं।

3. उक्त परिपेक्ष्य में राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक-07.03.2022 के बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में राज्य में बाढ़ के दौरान बाढ़ जनित कारणों से सर्पदंश से मृत्यु होने के अतिरिक्त सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) में शामिल करते हुए मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को

राज्य आपदा रिस्पाँस कोष (SDRF)/राष्ट्रीय आपदा रिस्पाँस कोष (NDRF) से संबंधित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जायेगा।

यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संजय कुमार अग्रवाल,  
सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 126-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>